



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 267]  
No. 267]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 1978/भाद्र 20, 1900  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 1978/BHADRA 20, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1978

सीमा-शुल्क

सां०का०नि० 449(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 18 राजस्व, तारीख 25 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, 'चीनी मिट्टी की छड़' शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं भी वे आते हैं 'चीनी मिट्टी की छड़ें और चीनी मिट्टी के ट्यूब' शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 175/का० सं० एस 1/78 टी०आर०यू(सी०शु०)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th September, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is

necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 18-Customs, dated the 25th January 1978, namely:—

In the said notification, for the words "ceramic rods", wherever they occur, the words "ceramic rods and ceramic tubes" shall be substituted.

[No. 175/F. No. S. 1/78-TRU (Cus)]

सां०का०नि० 450 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 39.01/06 के अन्तर्गत आने वाले एपोकसाइड रेजिंस को, जब भारत में उसका आयात शीर्ष की सारणी में विनिर्दिष्ट "ताप प्रतिरोधकों से निम्न प्रतिरोधकों" के विनिर्माण के लिए किया जाए—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उसने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक हो; और

(ख) उपरोक्त दूसरे अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उस पर उद्ग्रहणीय पूरे अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके, स्वयं को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि वह संबंधित एपोकसाइड रेजिंस का ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधान प्ररूप से यह साबित नहीं किया गया है कि वह उक्त सारणी

में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, माँग किए जाने पर, उक्तनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस मात्रा पर उद्घाटनीय शुल्क और आयात के समय संदल शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

#### सारणी

1. 20 वाट तक की पावररेटिंग वाले कार्बन फिल्म प्रतिरोधक।
2. 20 वाट तक की पावररेटिंग वाले मेटल फिल्म प्रतिरोधक।
3. 20 वाट तक की पावररेटिंग वाले मेटल आक्साइड फिल्म प्रतिरोधक।

[सं. 176/का० सं० एस 1/78 टी०आर०यू० (सी०शु०)]

**G.S.R. 450(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts epoxide resins, falling under Heading No. 39.01/06 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of "resistors other than heating resistors" specified in the Table below, from—

- (a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem; and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the epoxide resins in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of the goods specified in the said Table an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

#### TABLE

1. Carbon film resistors of power rating upto 20 watts.
2. Metal film resistors of power rating upto 20 watts.
3. Metal oxide film resistors of power rating upto 20 watts.

[No. 176/F. No. S. 1/78-TRU (Cus)]

**सा०का०नि० 451 (प्र).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) का धारा 35 का उपधारा (4) के साथपठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्ताव यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 96-सीमाशुल्क तारीख 12 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, कम सं० 209 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"210 सं० 176-सीमाशुल्क, तारीख 11 सितम्बर, 1978."

[सं० 177/का० सं० एस 1/78-टी०आर०यू० (सी०शु०)]

जोसेफ डोमिनिक, अवर सचिव

**G.S.R. 451(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 96-Customs, dated the 12th May, 1978, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 209 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"210. No. 176-Customs, dated the 11th September, 1978."

[No. 177/F. No. S. 1/78-TRU(Cus)]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.